




भावनाएं

Sentimentos


 Espen Stranger-Johannessen

 Aakanee

 Pratibha Singh

 1


 हिन्दी hi / português pt



“मुझे डर लग रहा है।”

...


“Eu estou assustado.”



“अरे!”

...


“Ai!”



“तुम ठीक तो हो?”

...


“Estás bem?”



“मेरे पेट में दर्द हो रहा है।”

...


“Dói-me o estômago.”



“मेरे सिर में दर्द है।”

...


“Eu tenho dor de cabeça.”



“मुझे भूख लगी है।”

...

“Estou com fome.”



“मैं तो थक गया।”

...


“Estou cansado.”



“मुझे नींद आ रही है।”

...


“Estou com sono.”



“मुझे प्यास लगी है।”

...

“Estou com sede.”



“कितनी शर्म की बात है।”

...

“É uma pena.”



LIDA Stories

lidastories.net

भावनाएं

Sentimentos



Espen Stranger-Johannessen



Aakanee



Pratibha Singh (hi), João Caramelo (pt)

